

31.12.2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्थाई सम्पत्ति का विवरण

STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY ON FIRST APPOINTMENT / FOR THE YEAR ENDING 31.12.2022.

कृपया 31.12.2022 तक की सभी स्थाई सम्पत्ति का विवरण दीजिए। (Please give details of all immovable property up to 31.12.2022)

1. कर्मचारी का पूरा नाम तथा सेवा जिससे सम्बन्धित है।
Name of Employee (in full) and service to which the officer belongs

2. वर्तमान पद

Present post held

SCIENTIST - C

3. वर्तमान वेतन

Present Pay 858001-

जिला, तालुका और गाँव जहाँ सम्पत्ति स्थित है। Name of District, Sub division, Taluka and Village in which property is situated.	सम्पत्ति का नाम और ब्यौरे Name & details of property		भूमि का क्षेत्रफल Land (area of land)	वर्तमान मूल्य Present Value	यदि आपके अपने नाम पर नहीं है तो बताएं कि किसके नाम पर है और सरकारी कर्मचारी के साथ उसका क्या सम्बन्ध है। If not in own name state in whose name held and his/her relationship to the Govt. servant	कैसे प्राप्त किया, क्रय से, पट्टा या बंधक से, दाय प्राप्त, भेंट या अन्य रूप से अर्जन तथा उसकी तारीख व किससे अर्जित की गई, नाम एवं विवरण दें। How acquired whether by purchase, lease mortgage, inheritance, gift or otherwise with date of acquisition and name with details of persons from whom acquired.	सम्पत्ति से वार्षिक आय Annual Income from the property	टिप्पणियाँ Remarks
	घर तथा अन्य भवन (जैसे घर नं., प्लॉट नं., खसरा नं. आदि.) Housing & other Building/Viz. House No., Plot No. Khasra No. etc.)	मूल्य						
1	2	3	4	5	6	7	8	
SURVER NO R82/3/11, 24/1, PORE WAL ROADS, LOHEGAON, TALUKA HAVELI, PUNE, MAHARASHTRA	B-2202 / AURUM ELEMENTO	820 sq ft Super building Area	Approx Rs 5000/- PATT	SUKHENDU DEB ROY, RELATION - SPOUSE	HOME LOAN FROM ATDEL LIMITED.	NIL	NIL	

1. जहाँ मूल्य निर्धारण ठीक-ठाक नहीं हो सकता, वर्तमान स्थितियों से सम्बन्धित अनुमानित मूल्य दिखाया जाना चाहिए।

In case where it is not possible to assess the value accurately, the approximate value in relation to present conditions may be indicated.

2. लघु अवधि पट्टा भी इसमें शामिल है।/Includes short-terms lease also.

हस्ताक्षर/ Signature:

Sampati Deb Roy

दिनांक/ Date:

30.1.2023